

07 फरवरी, 2023 को लखनऊ में 6^{ठी} एससीओ साई नेताओं की बैठक में
भारत के सीएजी की समापन अभ्युक्तियां

(मुख्य विषय-वस्तु 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' और 'साइबर सुरक्षा' उप-विषयों के साथ
लेखापरीक्षा में उभरती प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना)

महामहिम और प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों,

मैं लखनऊ में 6^{ठी} एससीओ एसएआई नेताओं की बैठक के सफल
संचालन में सहयोग के लिए अपने सभी सम्मानित सहयोगियों के
प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

मैं इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए एससीओ सचिवालय के
प्रतिनिधियों को धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं बैठक के दौरान साझा की गई उभरती प्रौद्योगिकियों को एकीकृत
करने वाली विषय-वस्तु पर व्यावहारिक प्रस्तुतियों की सराहना
करता हूं। मुझे विश्वास है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर
सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सदस्य एसएआई द्वारा किए गए कार्य
शासन को बल देंगे और इससे लोक प्रशासन में दक्षता, जवाबदेही,
प्रभावशीलता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

में बैठक में प्रस्तुत किए गए देश के दस्तावेजों की हृदय से सराहना करता हूं। लेखापरीक्षा प्रथाओं में अभिनव और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन पर उनके द्वारा प्रदान की गई अंतर्दृष्टि मूल्यवान थी। इन दस्तावेजों से लेखापरीक्षा दक्षता, प्रभावशीलता संवर्धन और लोक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में इन प्रौद्योगिकियों की अपार क्षमताओं का पता चला है।

हमारी चर्चाओं से उन विभिन्न दृष्टिकोण को एक साथ लाया गया है कि किस प्रकार एससीओ एसएआई अपनी लेखापरीक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नई तकनीक का उपयोग करते हैं और अधिक प्रभावशाली लेखापरीक्षा उत्पाद प्रदान करते हैं। यह बैठक हमारे लिए एक-दूसरे से सीखने और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में सुधार के लिए नई संभावनाओं का पता लगाने का एक बहुमूल्य अवसर रही है। मैं अपने सहयोग को जारी रखने और हमारे एसएआई की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए एक साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं।

साझा की गई केस स्टडी और उदाहरण अन्य सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों (एसएआई) के लिए जानकारी के एक मूल्यवान स्रोत होते

हैं, ये अनुभवों के क्रॉस फर्टिलाइजेशन के माध्यम से हम सभी को समृद्ध करते हैं।

साई इंडिया का मत है कि एआई लेखापरीक्षकों के लिए गेम चेंजर है। लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के लिए एआई तकनीकों के क्रियान्वयन के पर्याप्त संभावित लाभ हैं और पहले से ही कई उपयोग मामलों के माध्यम से पहचाने जा चुके हैं। हमारा उद्देश्य एआई का उपयोग केवल एक विशिष्ट लेखापरीक्षा के लिए एक बार के समाधान के रूप में नहीं करना है, बल्कि एक विकसित एआई मॉडल का सृजन करना है जो नियोजन और निष्पादन दोनों चरणों के दौरान जोखिम मूल्यांकन कई मापदंडों को जोड़ने और नमूनाकरण के माध्यम से कहीं अधिक व्यापक मूल्यांकन के लिए त्वरित और अधिक विस्तृत विश्लेषण प्रदान करे ।

सार्वजनिक क्षेत्र की सत्त्वों में इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण और कम्प्यूटरीकृत प्रणालियों में परिवर्तनों को देखते हुए, सूचना प्रणाली नियंत्रणों की जांच करने के लिए आवश्यक कौशल का निर्माण करना साई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि इस बैठक में साई इंडिया द्वारा साझा किया गया है, हमारी साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा

टीम विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों तृतीय-पक्ष प्रबंधन, शासन पहलुओं, प्रलेखन, उपयोगकर्ता पहुंच नियंत्रण, और विधिक अनुपालन सहित पर केंद्रित है। वे सुनिश्चित करते हैं कि तीसरे पक्ष के कार्यकलापों की प्रभावी निगरानी हो और समेकित समझौते इन कार्यकलापों को नियंत्रित करते हैं। टीमें घटना प्रबंधन, समस्या प्रबंधन, और आईटी सुरक्षा नीति के लिए मानकों और प्रक्रियाओं को भी सत्यापित करती हैं, इसके अतिरिक्त, वे यह सुनिश्चित करती हैं कि ज्ञान हस्तांतरण और निकास प्रबंधन के लिए प्रलेखन अद्यतन और सुलभ है। लेखापरीक्षा में उपयोगकर्ता पहुंच नियंत्रण भी शामिल हैं, बहु-कारक प्रमाणीकरण सहित, और एक आश्वासन प्रदान करता है कि संगठन साइबर सुरक्षा के लिए निर्धारित समग्र विधिक ढांचे के अनुरूप है।

प्रिय साथियों

में सभी सम्मानित सहयोगियों संयुक्त वक्तव्य को सुदृढ़ करने में उनके प्रयासों के लिए अपनी सराहना व्यक्त करना चाहूंगा, जो न केवल एससीओ एसएआई के बीच सहयोग के महत्व की पुष्टि करता है, बल्कि बेहतर लेखापरीक्षा परिणाम प्राप्त करने और लेखापरीक्षा उत्पादों

की गहराई सटीकता और समयबद्धता में सुधार करने के लिए काम करने महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र बनाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को भी दोहराता है।

प्रिय साथियों,

हमें एक प्रतिष्ठित समूह का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो शासन को मजबूत करने और पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। जैसा कि अब हम बैठक के समापन पर आते हैं, आइए हम इन महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने लेखापरीक्षण में अभिनव और उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें।

आशा और सहयोग की साझा भावना के साथ, मैं एससीओ एसएआई और एससीओ सचिवालय के अपने सभी सहयोगियों को शांति और समृद्धि के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम 2023 को हम सभी के लिए एक सफल वर्ष बनाने का प्रयास करें और अपने साझा लक्ष्यों की दिशा में प्रगति जारी रखें। आप सभी को धन्यवाद।